

क्या आपका कोई परिचित गलत रास्ते पर जा रहा है?

Hindi | हिन्दी

> और अधिक जानें



> जुड़े रहें



किस बात का ध्यान रखें

क्या आपको अपने किसी करीबी व्यक्ति में परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? शायद वे सामान्य से अधिक अंतर्मुखी हो गए हैं, अक्सर ऑनलाइन रहते हैं, अधिक आक्रामकता से व्यवहार करते हैं, या कम सहनशील बन रहे हैं।

ये इस बात के संकेत हो सकते हैं कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। कभी-कभी जब लोग अकेलापन महसूस करते हैं या गलतफहमी का शिकार होते हैं, तो वे उग्रपंथी समूहों के साथ अपनापन महसूस करते हैं, जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं तथा उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।

हमारा उद्देश्य आस्ट्रेलियावासियों को नकारात्मक हिंसक उग्रपंथी प्रभाव से बचाने के लक्ष्य से समुदायों को सशक्त, शिक्षित और सूचित बनाना है।

आप कैसे मदद कर सकते/ती हैं

कभी-कभी किसी करीबी की मदद करने के लिए बस उनकी बात अच्छे से सुनने की ज़रूरत होती है। उनके बारे में कोई राय बनाए बिना उनकी बात सुनने से आप एक सुरक्षित माहौल बनाते/ती हैं, जो स्वीकृति और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। लगातार स्वस्थ बातचीत को प्रोत्साहित करने से अच्छे संबंध बनेंगे और एक स्थायी परिवर्तन आएगा।

इसके फलस्वरूप व्यक्ति के लिए हिंसा का समर्थन करने वाले समूहों से जुड़ने का बढ़ावा कम हो सकता है।

स्टेप टुगेदर (Step Together)

स्टेप टुगेदर ऐसे लोगों के लिए एक हेल्पलाइन और डिजिटल सहायता सेवा है, जो अपने प्रियजनों की सहायता करने और उन्हें हिंसक उग्रवाद में शामिल होने से बचाने के बारे में सलाह चाहते हैं।

योग्यता-प्राप्त केस कार्यकर्ता एक सुरक्षित और सहयोगात्मक स्थान में आपको दूसरों की मदद करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं, तथा आपको अपने समुदाय में उपयुक्त सहायता सेवाओं से जोड़ सकते हैं।

सलाह और सहायता के लिए संपर्क करें:

हमें 1800 875 204 पर कॉल करें

या www.steptogether.gov.au पर जाएं

जुड़ें

@steptogetheraus

@steptogetheraus

@steptogetheraus

@steptogetheraus



Australian Government